SYSTEMATIX SECURITIES LTD.

Registered Office: 35, Old Industrial RIICO Area, Chittorgarh, Rajasthan, India 312001, Mob. No. - 9414111117
Web: www.systematixsecurities.in, E-mail-systematixctor@gmail.com, CIN: L65999RJ1986PLC070811

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date:16th August 2022

Sub.: Announcement under Regulation 30 of SEBI (LODR) regulations, 2015 – Newspaper clippings - Notice of 36th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure.

Ref.: SYSTEMATIX SECURITIES LTD (BSE Scrip Code 531432, SCRIP Name: SYTIXSE, ISIN No. INE07P301011)

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (LODR) regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper clippings of Notice of 36th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure published in Financial Express (English Edition) and Business Remedies (Hindi Edition) on Monday, 15th August, 2022.

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully, For Systematix Securities Limited

For-Systematix Securities Ltd

Director/Auth, Sign,

Rajesh Kumar Inani

Director

DIN: - 00410591

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

CIN: L14219RJ1988PLC062162

पंजीकृत कार्यालयः प्लैट नं. ६०६, योजना चोपासनी जागीर,

खसरा नं. 175/74, प्लॉट नं. 15/16 जोघपुर, राजस्थान-342001

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के गैरअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

30.06.2022

(गैरअंकेशित

0.04

0.00

दिप्पणीः १. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियमन ३३ के तहर

स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सर है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पुर

समाप्त वर्तमान अवधि के

लेए वर्ष बर वर्ष के आंक

30.06.2022

(गैरअंकेक्षित

0.04

5.67

-5.67

5.67

पिछले वर्ष की सम

समाप्त तिमही

30.06.2021

(गैरअंकेक्सित)

0.00

-5.27

-5.27

-5.27

निदेशक मंडल के आदेश रे

प्रबंध निदेशव

डीआईएन: 0046443

DIN-0048002

बीलकंठ रॉक-मिबरल्स लिमिटेड के लिप

शेयर बाजार का तेजी की तरफ ध्यान

दिनांक 16.08.2022 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में....

दिनांक 12.08.2022 पर निफ्टी प्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 17716 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी प्रयूचर 17808 अंक के सबसे महत्वपूर्ण स्तर 17933 अंक. 18008 अंक को छू सकता है और सबसे महत्वपूर्ण 17474 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ कारोबार कर सकता है। निफ्टी फ्यूचर में 17303 अंक महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थित....!!!

दिनांक 12.08.2022 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ ३९१०३ पॉइंट पर :-अगले कारोबार के लिए संभवित

बैंक निपटी प्रयूचर ३९२३२ अंक के सबसे महत्वपूर्ण स्तर ३९३७३ अंक, 39474 अंक को छू सकता है और सबसे महत्वपूर्ण 38808 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ कारोबार कर सकता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 38606 अंक महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थित...!!!

अब नजर डालते हैं फ्यचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

डिवीज लेबोरेटरीज (3724) :-फार्मा ग्रुपकी इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 3660 रुपये के आसपास है। 3653 रुपये के सख्त स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक कम समय में 3770 रुपये से 3808 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!! 3819 रुपये पर बुलिश ट्रेंड...!!!

इन्फोसिस लिमिटेड (1595) :-तकनीकी चार्ट के अनुसार 1577 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउटज!! 1560 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला स्टॉक 1606 रुपये से 1616 रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना



निखिल भटट रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत

महिंद्रा एंड महिंद्रा (1267) :-



पहला स्टॉप लॉस १२३० रूपये और दसरा स्टॉप लॉस 1218 रुपये के साथ, निवेश उन्मुख पैसेजर कार्स एंड युटीलिटी व्हीकल्स सेक्टर का यह शेयर 1288 रुपये से 1303 रुपये तक का तेजी का रुख

विप्रो लिमिटेड (437) :-टेक्नोलोजी सेक्टर के शेयर में 454 रुपये से 460 रुपये तक की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्षमता है...!! ४१४ रुपये के अनुमानित स्टॉपलॉस पर एक

गोवरेज प्रॉपर्टीज (1358) : - 05 रुपये का फेस वैल्यू वाला फंडामेंटल स्ट्रॉब्ग यह स्टॉक करीब 1330 रुपये स्टॉप लॉस के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है। रेजिडेसियल, कॉमर्शीयल प्रोजेकट सेक्टर के इस स्टॉक में लगभग 1377 रुपये से 1390 रुपये तक लक्ष्य की संभावना है!!!

रिलायंस इंडस्ट्रीज (2634) :-तकनीकी चार्ट के अनुसार

रिफाइनरी एंड मार्केटिंग के इस शेयर का लक्ष्य करीब 2606 रुपये से 2588 रुपये के आसपास के मुनाफे पर बिकवाली होने की संभावना है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए २७०७ रुपये का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!

लार्सन एंड दुबो (1853) :- इस शेयर को 1888 रुपये के स्टॉप लॉस पर. लगभग 1893 रूपये में एक ओवरबोट स्थिति दर्ज करते हए बेचा जा सकता है..!! इसकी कीमत 1833 रुपये से 1818 रुपये चरणों में दिखाने की संभावना है...!! 1900 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!!

एसीसी लिमिटेड (2255) :-रिमेंट एंड सिमेंट प्रोडक्ट सेक्टर का यह स्टॉक 2274 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बिक्री के लिए है। प्रति यात्मक कमी के साथ 2227 रुपये से 2207 रुपये के मुल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!

ॲक्सिस बैंक (762):- चार्ट के मुताबिक प्राइवेट बैंक सेक्टर के इस शेयर को करीब 787 रूपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 747 रुपये से 740 रुपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 797 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!!

कोटक बैंक (1848) :- इस शेयर को करीब 1863 / 1877 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 1828 रुपये से लेकर 1808 रुपये तक रहने की संभावना है। १८९० रुपये पर बुलिश ट्रेंड...!!! लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं।

विशेष नोट:- डिस्कलमर / नीति / शर्ते www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!

नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

टाटा मोटर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस प्रोग्राम की पेशकश करने हेत् साझेदारी की

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। त्यौहारों के इस सीजन को खास बनाने की एक कोशिश में. भारत की अग्रणी ऑटोमोटिव उत्पादक, टाटा मोटर्स ने भारत की सबसे बड़े बैंक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत कंपनी के अधिकृत यात्री इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) डीलरों को इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस सॉल्यूशन (ई-डीएफएस) दिया जाएगा। इस फाइनेंस स्कीम ऑफर की शुरूआत पर अपनी बात रखते हुए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, शैलेश चंद्रा ने कहा,

क्र. विवरण

परिचालनों से कुल आय

इक्विटी शेयर पूंजी

बैलेंस श्रीट में दिखाया गया है

2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर

असाधारण और या असाधारण वस्तओं से पहले

अद्योध के लिए कर से पहले श्रद्ध लाभ/(हादि)

4. अवधि के लिए कर के **बाद शुद्ध** लाभ / (हानि

(असावारण और या असावारण वस्तुओं के बाद)

(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)

अवधि के लिए कुल खापक आय (अवधि के लिए

और अन्य समावेशित आय (कर पश्चात)

आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को

छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित

8. आय प्रति श्रेयर (रु. १०/- प्रति का अंकित मल्ब

(नियमित व अनियमित संचालन के लिएं)

प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bæindia.com) पर उपलब्ध है।

(कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि)

'देश में ईवी को ज्यादा तेजी से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिये एक मजबूत नेटवर्क और सशक्त चैनल पार्टनर्स का होना काफी महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करके हमने इस दिशा में एक और कदम बढाया है। वे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक हैं, जिनका एक व्यापक नेटवर्क है और उनके साथ साझेदारी करके हम बेहद खुश हैं। हम अपने अधिकृत इलेक्ट्रिक यात्री वाहन डीलरों को एक विशेष फाइनेंसिंग प्रोग्राम देना चाहते हैं, जो प्रदूषणरहित परिवहन के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाते हैं और देश में स्थायित्व को

इस साझेदारी के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, दिनेश खारा ने कहा, 'हम टाटा मोटर्स के साथ यह अनुबंध करके काफी खुश हैं, क्योंकि यह हमें

डीलर फाइनेंस प्रोग्राम में लंबी अवधि की अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने का अवसर देता है। इससे हमें प्रदूषण-रहित भविष्य में योगदान देने में समर्थ होने का संतोष भी मिलता है, क्योंकि यह

अधिकृत डीलरों की फाइनेंसिंग हेत् उपलब्ध होगी। हमें विश्वास है कि यह देश में ईवी की संस्कृति और उन्हें अपनाये जाने को बढ़ावा देने की दिशा में लंबे

सिस्टेमेटिक्स सिक्यूरिटीज लिमिटेड

क्रेडिट लाइंस टाटा मोटर्स के

CIN: L65999RJ1986PLC070811 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट ३५, पुराना रीको औद्योगिक क्षेत्र, चितौडगढ़ (राज.) ३१२००१

फोनः 094111-11117 E-mail-systematixctor@gmail.com, Web: www.systematixsecurities.in

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

सिस्टेमेटिक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयरधारक

- एतदवार रचना दी जाती है कि कंपनी की 36वीं (छत्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 8 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") सुविधा/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में व्यवत व्यापार करने के लिए आयोजित की जाएगी. जिसे एजीएम आयोजित करने के लिए भेजा जा रहा है।
- कोविङ-१९ महामारी की निरंतरता को देखते हुए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, **ਹਿੰਦਰ ਤੋਂ 17/2020 ਫਿਰਾਨਿਰ 13 3ਪੈਂਕ 2020 ਪਹਿੰਦਰ ਤੋਂ 20/2020 ਫਿਰਾਨਿਰ 5 ਸ**ਵੇਂ 2020 **ਪੈਂਟ ਪਟਿਪਰ ਤੋਂ 12/2021 ਫਿਰਾਨਿਰ 13 ਹਰਰਟੀ** 2021 (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संबर्भित) और सेबी ने 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वर्षिक आम बैठक (एजीएम) बिना सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के आयोजित करने की अनुमति दी। कंपनी अधिनयम, २०१३ (''अधिनियम''), रोबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ (''रोबी लिस्टिंग विनियम'') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालना में कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- वार्षिक रिपोर्ट २०२१-२२ के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सबस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं।
- डीमेट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ई-मेल पत्ने, मोबाइल नंबर और बैंक संबंधित जानकारी को संबंधित डिपॉजिटरी में पंजीकत कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और कंपनी के साथ बैंक संबंधित जानकारी systematixctor@gmail.com पर प्रेक्षित करें। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की 36वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.systematixsecurities.in</u> और एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.cdsl.com</u> पर भी उपलब्ध होगी
- कंपनी अपने सभी सहस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रजीएम ('ई-वोटिंग') के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के मध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी गई है।
- 36वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को लागू कानून के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर यथासमय भेजी जाएगी।
- अधिनियम की धारा ९१ और सेबी (सूचीबद्धता व्रियत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम), २०१५ के नियम ४२ के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुरतकें २ सितंबर, २०२२ से ८ सितंबर, २०२२ (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
- यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रस्न या समस्या है, तो आप <u>www.evotingindia.com</u> पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्न (''एफएक्यू') और ई-वेटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर ईमेल लिख सकते हैं।
- ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 05 सितंबर, 2022 को सुबह 09.00 बजे से मुरू होगी और बुधवार, 07 सितंबर 2022 को माम 5.00 बजे समाह होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक गुरुवार 1 सितम्बर, 2022 की कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 10. ई-वोटिंग के संबंध में डीमेट रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत सदस्य और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ऑकत कांसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से देलीफोन नंबर 0731 4281333, 0731 4065797/99 पर फोन कस्के य उन्हें <u>compliance@ankitonline.com</u> और <u>investor@ankitonline.com</u> पर निखकर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 13/08/2022 स्थानः चितौडगढ

सिस्टेमेटिक्स सिक्युरिटीज लिमिटेड के आदेश से राजेष्ठ कुमार ईनाणी पूर्ण कालिक निदेशक (डीआईएन:00410591)

संस्थापकों ने अविश्वनीय संगठन बनाया, इन्फोसिस की स्थिति टिकाऊ : सलिल पारेख

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सितल पारेख ने एक 'अविश्वनीय संगठन' बनाने के लिए कंपनी के संस्थापकों की सराहना करते हुए भरोसा जताया है कि हमेशा मजबूती से खड़ी रहने वाली फर्म इस स्थिरता को आगे भी कायम रखने में सफल रहेगी। कुछ साल पहले इन्फोसिस के संस्थापकों और तत्कालीन प्रबंधन के बीच पैदा हुए विवाद के बाद कमान संभालने वाले पारेख ने कंपनी को स्थिरता की ओर ले जाने में भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि इन्फोसिस प्रौद्योगिकी की अगुवाई में पैदा होने वाले वृद्धि अवसरों का लाभ उठाने के लिए अगले कई साल तक बेहतर स्थिति में होगी। कामकाज के संचालन के मुद्दों पर एन आर नारायणमूर्ति सहित बोर्ड और संस्थापकों में विवाद के बीच जनवरी. 2018 में पारेख ने इन्फोसिस की कमान संभाली थी। इस विवाद की वजह से तत्कालीन सीईओ विशाल सिका को इन्फोसिस से बाहर जाना पड़ा था। क्या इन्फोसिस ने मुश्किलों के उस दौर को पीछे छोड़ दिया है, पारेख ने बताया, ''हम एक अच्छी और टिकाऊ स्थिति में हैं। मुझे लगता है कि कंपनी हमेशा मजबूत रही है।" उन्होंने कहा, ''हमने देखा है कि संस्थापकों ने एक अविश्वसनीय संगठन बनाया है। और इसलिए कंपनी हमेशा एक अच्छी स्थिति में रही है। हम इस रिश्वरता को जारी रखने की उम्मीद करते हैं।"

कंपनी ने हाल में मजबूत मांग और बेहतर आपूर्ति का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने राजस्व वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 14-16 प्रतिशत कर बाजार को चौका दिया है। पिछले पांच साल में कंपनी की एकीकृत आय काफी तेजी से बढ़ी है। मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष में यह 73,715 करोड़ रूपये थी जो मार्च, 2022 में बढ़कर 1,23,936 करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान एकीकृत शुद्ध लाभ 16,029 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,110 करोड़ रुपये हो गया है।

गणपति प्लास्टफैब लिभिटेड सीआईएन: L25209RJ1984PLC003152

पंजीकृत कार्यालयः 334, शेखाबत मानसिंह ब्लॉक, नेपी तापर कॉलोनी, क्वींस रोड, जयपुर-302016, राजस्या प्रशासनिक कार्यालय: सी-58(बी), शेंह नी.2-डी, इंडस्ट्रियल एरिया, बिंदाबका जवपुर- 302012 संपर्क नंबर:: 0141-4001716, ईमेल आईडी: mail@gpl.co.in वेबसाइट: www.gpl.co.in 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम

西		तिमार	तिमाही समाप्त			
百万	विवरण	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	30.06.2021 अलेखापरीक्रित	31.03.2022 ਜੇਗਾਪ੍ਰੀਜ਼ਿਨ	31,03,2022 लेखापरीक्षित	
1	कुल परिचालन आय	3331.81	2954.59	3590.50	12572.69	
2	अवधि के लिए बुद्ध लाप/(हानि) (कर असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के पहले)	20.85	58.25	87.44	216.82	
3	अवधि के लिए कर के पहले शुद्ध लग्म/ (हानि) (असाधारण और/ या असामान्य वस्तुओं के बाद)	20.85	58.26	87,44	216.82	
4	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (कर, असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के बाद)	22.41	33.98	76.05	158.90	
5	अवधि के लिए कुल आय	0.00	0.00	(2.46)	(2.46)	
6	समता अंश पूजी	266.06	266.05	266.06	266.06	
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोत्कर)	0.00	0.00	0.00	1497.89	
8	आय प्रति शेयर (क. 10/- प्रति का अंकित मन्य) मन एवं तरल	0.84	1.28	2.77	5,97	

मोट: 1. उपरांक एकल विशीय परिणाम की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 अगस्त, 2022 को आयोजित जनकी संबंधित बेठक में कामी के निर्देशक महत्व द्वारा अनुमोदित किया गया है 2. उपरोक्त बिबरण सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत्त स्टॉक एक्सप्रेज में प्रस्तुत किये अलेखाएसीक्षित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रांक्य स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.csa-india.com तथ कंपनी की वेबसाइट www.gpl.co.in पर उपलब्ध हैं। 3. तटनुरूपी पिछली अवधि के आकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहां कही आवश्यक हो पुनः समूहित किया गया है। बोर्ड के आदेश दारा है। बोर्ड के आदेश द्वारा गणपति प्लास्टफैब लिमिटेड

हरताक्षर/-स्थान: जयपुर दिनांक: 13/08/2022 अशोक कुमार पाबूवाल, प्रबंध निदेशक DIN: 00183513

🖘 शंकर लाल रामपाल डाई-केम लिमिटेड 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वितीय परिणामों का सार (अंत्रों के आकरों के अनवा होच राभी, रूपरे लाख हो)

स्वानः जोद्यपुर

दिवांकः १३ अगस्त, २०२२

di.	विवरण		ਦਸ਼ਸ਼ਸ ਰਿਸ਼ਾਫ਼ੀ		समास विता वर्ष
सं		30.06,2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1.	प्रचलनों से कुल आय	8,348.98	9201.33	5493.18	30328.96
2.	अवधि के लिए युद्ध लाभ / (हानि)(कर,असामान्य तथा असाधारण मदों से पूर्व)	826.70	818.34	472.71	3580.25
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) करों से पूर्व (असामान्य तथा /या असाधारण महों के परचात)	826.70	818.34	472.71	3580.25
4.	अवधि के लिए युद्ध लाभ / (हानि) (कर्डे से पश्चात) असामान्य तथा /या असाधारण मदों के पश्चात)	619.68	675.65	335.05	2706.44
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक अम्मवृत्ती (अवधि के लिए (कर पश्चात) मुनाफा/(हानि) तथा अन्य व्यापक आमवृत्ती (कर पश्चात)	618.68	675.65	335.05	2706.44
6.	पेडअप इक्किटी रेयर पूंजी	2132,23	2132.23	1066.11	2132,23
7.	पुजर्कुरचांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व जैसा कि गत को की बैलेंस छीट में वर्शाया गया	-	•	123	5545.11
8.	प्रति श्रेयर अर्जन (वार्षिक नहीं) (प्रारोक रा 10/-) असावारण वस्तुओं से पहले और असावरण वस्तुओं के बाद (मृल एवं राजुकत)	2.90	3.17	3.14	12.69
	(मूल एवं तबुक्त समायेजित)	2.90	3.17	3.14	12.69

- उपरोक्त 30 जुन, 2022 को तिमाही के एकल वितीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निबेशक मंडल द्वारा 13 अगस्त, 2022 को आगिज़त उनके संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया है। यह विकास कंपनी अधिनियम २०१९ की धरा १९९ के तबत निर्धित कंपनी (भारतीय लेख मानक) नियम २०१५ (इंड एएस) के अनुसर और अन्य स्वीकत लेखांकन प्रथाओं और नीतियों
- के अनुसार लागू सीमा तक तैयार किया गया है। उपरोक्त सेबी (सुधीबद्ध वृधित्व और प्रकटीकरण आवस्थकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ब्रबर तिमाही विहीय परिणामों के विश्तृत प्रारूप क
- एक उद्धरण है। तिमाही वितीय परिणामों का पूर प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.srdyechem.com पर उपलब्ध है िपछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि प्रस्तुति के साथ पुष्टि करने के लिए, जहां भी आवस्यक हो, पुनः समृहित/पुनः कर्गीकृत/पुनः व्यवत किया गया है।

गमपाल ईवाणी चेचरमेन एवं प्रशंध निदेशक

पंजीकृत कार्यालय का पताः एस.जी. २७३०, सुवाणा, भीलवाइा-३११०११(राज.) CIN L24114RJ2005PLC021340, दूरभाष : +91-1482-220062, ई मेल: info@srdyechem.com, वेबसाइट: www.srdyechem.com

डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 51, लोहिया कॉलोनी, 200 फुट बाय-पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021 दूरभाष : +91-7999999975, ई-मेल: info@debockgroup.com, वेबसाइट: www.debockgroup.com 30 जुन, 2022 को समाप्त तिमाही के गैरअंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

Წ.	विवरण		एकल				
ਰਂ.	1100-020-0400	समाप्त तिमाली	समास तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
		अन् अंकेक्षि त	अंकेकित	अन्अंकेश्चित	अंकेश्वित		
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022		
1.	परिचालन से कुल आय	3678.19	3709.31	1756,36	9741.03		
2.	कुल खर्च	2995.71	3120,94	1655.54	8845.22		
З.	अवधि के लिए ब्रुद्ध लाभ/(हानि) (कर,असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले#)	682.48	588.36	100.81	895.82		
4.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हामि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पश्चात#)	682.48	588.36	100.81	895.82		
5.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(लांबि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पश्चात#)	513.5	443.07	78.47	672.61		
6.	अवधि के लिए कुल व्यापक अरा [अवधि के लिए लाम/(हामि) (कर पंधात) और अन्य व्यापक आरा (कर पंधात)	513.62	443.2	78.59	672.61		
7.	इक्किटी शेयर पुंजी	3822.00	2322.00	822.00	2322.00		
8.	अन्य इक्किटी		. 4		4647.02		
9.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (नियमित और अनियमित परिचालन के लिए के लिए)						
	मुल एवं तनुकृत	3.06	4.31	0.96	6.55		

उपरोक्त वितीय परिणामों की कंपनी की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रंसा की गई और शनिवार, 13 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी

के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंडिया एएस के तहत निर्देष्ट) अधिनयम की धारा १३३ राजठेत कंपनीज (भारतीय लेखा मानक नियम, २०१५ यथा रांशीधित, और सेबी (सूचीबद्ध वायत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 33 यथा संशोधित के अनुपालन में वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं।

१ अप्रैल, २०२१ से इंड एर्स कंपनियों पर लागू हो गये हैं और उसी के अनुसार तुलनात्मक आंकड़ों को तैयार गया है। 3. 31 मार्च, 2022 को एनएसई-एसएमई प्लेटफॉर्म से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मैनबोर्ड पर चली गई है। इसके अनुसार कंपनी मार्च-22 के बाद से तिमाही आंकडे पेख कर रही है। प्रबंधन द्वारा आवश्यक सावधानी बरतने के साथ यह सुनिश्रत करने के लिए कि वित्तीय परिणाम कंपनी के कारोबार का सही और किप्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, 30 जून, 2021 को समास - तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े तैयार किए गए हैं। लेखा परीक्षक द्वारा 30 जून, 2021 को समास तिमाही के विलीय परिणामों सीमित समीक्षा नहीं की गई है।

इंड एएस 108 के संदर्भ में कंपनी के पास एक से अधिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं और इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं पिछली अवधि के आँकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो तुलनीय बनाने के लिए पुनर्कीधत/पुनर्रामूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थानः जयपुर

दिनांक: 13.08.2022

31 मार्च,2022 को रामाम तिमाही के वित्तीय परिणामों के आंकड़ों की 31मार्च,2022 को रामाम वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के बीच और 31 दिसंबर 2021 तव वर्ष-दर-वर्ष अप्रकाशित आंकड़ों की तुलना की गई है। 31,दिसंबर 2021 तक वर्ष-दर-वर्ष के अप्रकाशित आंकड़े सीमित समीक्षा के अधीन नहीं थे।

7. इसे कंपनी की वेबसाइट www.debockgroup.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर अपलोड किया गया है।

• • • • •

डिबॉक इंडस्ट्रीज तिमिटेड

मुकेश मनवीर मिन प्रबंध निदेशक DIN: 01765408

VIJAY SOLVEX LIMITED

Corporate Identity Number: L15142RJ1987PLC004232 Regd. Office: Bhagwati Sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar - 301001 (Raj.) Phone No. 0144-2332358, Fax No. 0144-2332320

website: www.vijaysolvex.com , email id: cs_lodha@dataoils.com EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL

RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2022 (Rs. in Lacs)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)
1	Revenue from operations	65763.97	271554.22	65396.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax ,Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	519.59	7293.56	1629.22
3	Net Profit / (Loss) for the period beforeTax (after Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	616.93	7619.80	1853.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates	481.11	5740.23	1445.71
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)]	(786.04)	8432.38	4581.87
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	320.13	320.13	320.13
7	Other equity excluding Revaluation Reserve (As per Audited Balance Sheet as at 31st March, 2022		32108.77	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised) (in Rs.) a) Basic : b) Diluted :	15,03 15.03	179.31 179.31	45.16 45.16

Additional information on Unaudited Standalone financial results is as follows:-

				(Hs. in Lacs)
	Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)
	Revenue from operations	65763.97	271554.22	65396.43
	Profit Before tax	519.59	7293.56	1629.22
-	Profit after tax	383.77	5413.99	1221,81

2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 have been reviewed by

the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 13-08-2022. 3. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) (as amended time to time) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.vijaysolvex.com).

> For & on behalf of the Board Vijay Solvex Limited sd/-

> > **0 0 0**

(VIJAY DATA)

Place : ALWAR Managing Director Dated : 13.08. 2022 DIN: 00286492

Current Quarter Preceding 3 months Corresponding three

FINANCIAL EXPRESS

DEBOCK INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Debock Sales And Marketing Limited) Regd. Office: 51, Lohiya Colony, 200 Feet Bye-Pass, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Telephone: +91-7999999975, E-Mail: info@debockgroup.com , Website: www.debockgroup.com Extract of Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June 2022 (Rs. in Lacs except figures of EPS)

5	Particulars		Standalo	THE .	
No.		Quarter Ended 30.06.2022 Un-Audited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited	Quarter ended 30.06.2021 Un-Audited	Year ended 31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	3678.19	3709.31	1756.36	9741.03
2	Total Expenses	2995.71	3120.94	1655.54	8845.22
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	682.48	588.36	100.81	895.82
4	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	682.48	588.36	100.81	895.82
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	513.5	443.07	78.47	672,61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	513.62	443.2	78.59	672.61
7	Equity Share Capital	3822.00	2322.00	822.00	2322.00
8	Other Equity	4			4647.02
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discounted operations)-				
	Basic/ Diuted:	3.06	4.31	0.96	6.55

The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee of the company and approved by

the Board of Director of the company at its meeting held on Saturday, August 13, 2022.

The Company has prepared the financial results as per Indian Accounting Standards (Ind AS specitred under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards Rules, 2015 as amended and in terrs of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirerrients) Regulation 2015 as amended. Ind AS has become applicable to the Company' with effect from 1st April, 2021 and the comparative figures have been restated accordingly.

The Corrpany has migrated to the main board of National Stock Exchange (NSE) w.e.f. March 31, 2022 fron NSE-SME platform. Accordingly, the company is presenting quarterly figures from March-22 onwards. The comparative figures of corresponding quarter ended 30th June, 2021 have been prepared by the Management by exercising necessary due diligence to ensure that the financial results reflect true and fair view of the Company affairs. The financial results for the guarter ended 30th June, 2021 have not been

The Company does not have more than one reportable segment in terms of Ind AS 108 and hence segment wise reporting is not applicable.

The quarterly financiatl results for the period ended March 31,2022 are the derived figures between the audited figures in respect of the year ended March 31,2022 and the unpublished year-to-dare figures up to December 31, 2021. The unpublished year-to-date figures up to

The same are uploaded on the website of the Company i.e. www.debockgroup.com and NSE i.e. www.nseindia.com For and on behalf of the Board of Directors

Debock Industries Limited

Mukesh Manveer Singh Manging Director DIN: 01765408

(Amount in Rs. Lacs)

BASANT INDIA LIMITED CIN: L51909DL1985PLCO21396,

Reg. Office: 912, Indraprakash Building, 21 Barahkhamba Road, New Delhi-110001 Tel: 01123716531 | E-mail: basant.indiaa@gmail.com Website: www.basantfinance.com

STATEMENT OF UNAUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th

JUNE, 2022

SL. No	Particulers	Quarter ending on 30/06/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2021	Year ending 31/03/2022
1.	Total income from operations	23.6	15.74	122.1
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	0.99	9.18	16.86
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	0.99	9.18	16.86
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	0.73	6.79	12.48
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.73	6.79	12.48
6.	Equity Share Capital	1031.5	1031.5	1031.5
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-665.24	-671.66	-665.97
8.	Earnings Per Share of Rs 10/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualized) 1) Basic:	0.1	0.07	0.12

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges

2) Diluted

Dated: 13.08.2022

format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (https://www.basantfinance.com/) and (https://www.msei.in/). b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

d) The above unaudited financial results for the quater ended on 30.06.2022 have been reviewed by Audit Committee and have been approved by the Board at their meeting held on 30.06.2022

For and Behalf of board of directors

Basant India Limited

Date: 14/08/2022

0.07

0.12

Place: New Delhi

Managing Director DIN: 00144736



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024. 22090987, 22235837, PREET VIHAR: AD BRIDGE COMMU-NICATION. Ph.: 9810029747. 42421234. 22017210. SHAKARPUR: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, NEW MOTI NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, VIKAS PURI: AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, KALKAJI: ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF **SARAI:** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399. GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA. Ph.: 0120-4216117. NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING. Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES) FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact : **ROHIT JOSHI** 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148,

0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30th June, 2022 (Rs. In lakhs except EPS

D.	Particulars	Quarter Ended			Financial Year Ended	
No.		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	
1.	Total Revenue from Operations	8,348.98	9201.33	5493.18	30328.96	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	826.70	818.34	472.71	3580.25	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	826.70	818.34	472.71	3580.25	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	618.68	675.65	335.05	2706.44	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	618.68	675.65	335.05	2706.44	
6.	Paid up Equity Share Capital	2132.23	2132.23	1066.11	2132.23	
7.	Other Equity as shown in the Balance Sheet of previous year except revaluation reserve.	-			5545.11	
8.	Earnings Per Share (not annualized) (of Rs. 10 /- each) Before Extraordinary items& After Extraordinary items (Basic & Diluted)	2.90	3.17	3.14	12.69	
	(Basic & Diluted Adjusted)	2.90	3.17	3.14	12.69	

The above Standalone financial results for the quarterJune 30th2022, were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 13th August, 2022.

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other Indian Generally Accepted Accounting Practices and Policies to the extent applicable. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the websites of Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.srdyechem.com. The previous period figures have been Re-grouped / Re-classified/Restated, wherever necessary, to confirm with the current period presentation.

For and By Order of Board Place:Bhilwara(Rajasthan) Rampal Inani Date:13/08/2022 Chairman & Managing Director

Regd. Office Address: S.G. 2730, SUWANA, BHILWARA-311011 (RAJ) CIN: - L24114RJ2005PLC021340, Phone: +91-1482-220062, Email: info@srdyechem.com, Website: www.srdyechem.com



PRITI INTERNATIONAL LIMITED

PLOT NO.F-43, BASNI IST PHASE, JODHPUR, RAJASTHAN- 342001 INDIA PHONE: 91-291-2435699 Mobile: 91-9314225699 E-MAIL: g.d.lohiya@gmail.com CIN: L36994RJ2017PLC058454

https://www.pritihome.com

S.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
No.		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Audited	Unaudited	(Audited)
1.	Total Income from Operations	1289.62	1582.85	1166.67	5725.43
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	218.26	153.90	155.52	605.13
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	218.26	153.90	155.52	605.13
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	157.69	108.34	112.23	437.50
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	157.69	108.34	112.23	437.50
6.	Equity Share Capital	1037.73	1037.73	259.43	1037.73
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	•	•	1164.77
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1.	Basic:	1.52	1.04	1.08	4.22
2.	Diluted:	1.52	1.04	1.08	4.22

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at (https://www.nseindia.com) website of Priti International Limited at (https://pritihome.com/investor/)

2. The unaudited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board at their meeting held on 13 August 2022 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 13 August 2022.

Date: 13/08/2022 FOR PRITI INTERNATIONAL LIMTED Place: Jodhpur SD/-

> PRITI LOHIYA MANAGING DIRECTOR

SYSTEMATIX SECURITIES LTD.

CIN: L65999RJ1986PLC070811 Regd. Off.: Plot 35, Old Industrial RIICO Area, Chittorgarh, Rajasthan, India 312001

Tel. no.: +91- 9414111117, E-mail- systematixctor@gmail.com web: www.systematixsecurities.in

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

The Shareholders of Systematix Securities Limited

. Notice is hereby given that 36th (Thirty Sixth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 08, 2022 at 02:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

2. In view of the continuing Covid-19 pandemic, The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide it's Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI vide it's Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through VC/OAVM, without the physical presence of the members at common venue. In compliance with the provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/Depositories Participants.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail addresses, mobile numbers and Bank Mandate with relevant depositories through their Depositories Participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their e-mail address, mobile numbers and Bank Mandate with the Company at systematixctor@gmail.com. The Notice of 36th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 will also be available on the website of the Company at www.systematixsecurities in and on the website of NSDL at www.evoting.cdsl.com

5. The Company is providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of AGM. 6. The Notice of 36th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable law on their registered

email addresses in due course.

7. Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from 02nd September, 2022 to 08th September, 2022 (Both days inclusive) 8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions

("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

9. The e-voting period begins on Monday, 05th September, 2022 from 09.00 A.M. and ends on Wednesday, 07th September 2022 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Company, as on the cut-off date (record date) of Thursday 01st September, 2022, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

10. For queries regarding e - voting non individual members holding shares in demat mode and Members holding shares in physical mode may contact Ankit Consultancy Pvt Ltd at the Telephone no. 0731 4281333, 0731 4065797/99 or write to them compliance@ankitonline.com and investor@ankitonline.com.

By order of the Board FOR SYSTEMATIX SECURITIES LIMITED

DIN: 00410591

Place: Chittorgarh RAJESH KUMAR INANI Date: 13/08/2022 WHOLE TIME DIRECTOR

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED

REGISTERED OFFICE: "Ananta Bhawan", 94, Vivekanand Nagar, P.O. - Podrah Andul Road, 3rd Floor, Room No. -303, Howrah - 711 109 Statement of Un-audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2022

Sr.	Particulars	Ended	ended	Previous Year
No.		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		Un-audited	Audited	Un-audited
1.	Total income from Operations	-	-	-
2.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (Before Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.85)	3.29	(3.49)
3.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.85)	3.29	(3.49)
4.	Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.85)	3.26	(3.49)
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other comprehensive Income (After Tax)	(6.85)	3.26	(3.49)
6.	Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	-	-	-
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(a) Basic	(0.03)	0.02	(0.02)
	(b) Diluted	(0.03)	0.02	(0.02)
Note	3'	- 1		

The above is an extract of the detailed format for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

For Anubhay Infrastructure Limited Nikita Rateria Place: Howrah (Company Secretary) Date: August 13, 2022

NEELKANTH ROCK-MINERALS LIMITED CIN NO. L14219RJ1988PLC062162

REGISTERED OFFICE: FLAT NO. 606, SCHEME CHOPASANI JAGIR, KHASRA NO. 175/74, PLOT NO. 15/16 JODHPUR, RAJASTHAN-342001 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

SI.	Particulars	3 Month ended	Year to date figures for current period ended	(Rs. In Lakhs corresponding 3 month ended in the previous year
		30.06.2022	30.06.2022	30 06 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	0.04	0.04	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.67	-5.67	-5.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.67	-5.67	-5.27
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.67	-5.67	-5.27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-5.67	-5.67	-5.27
6	Equity Share Capital	504.37	504.37	504.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.00	0.00	0.00

available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR NEELKANTH ROCKMINERALS LIMITED NORATMAL KAWAR MANAGING DIRECTOR

figures

31,03,2022

61382.67

DIN: 00464435

ended in the

previous year

31.03.2021

12863.01

Date : August 13, 2022

Total income from operations

Place: JODHPUR

DIN-00480021

(Rs. in Lakhs)

NOVA IRON & STEEL LTD

Regd. Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.) Email: rai nisl2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225-26 Fax: 07752-285213

Extract from the Audited Financial Results (Rs. in lacs) for the Quarter and Year Ended 31.03.2022 Corresponding Year to **Particulars** Ending date 3 months

31.03.2022

18202.66

Net Profit / (Loss) for the period 33.05 (1073.92)(364.37)(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before 33.05 (1073.92)(364.37)tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# Net Profit / (Loss) for the period after 53.64 (1478.18)(1515.64)tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income/ (Loss) 58.78 (1473.04)(1413.41) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 3613.95 Equity Share Capital 3613,95 3613.95 Reserves (excluding Revaluation (8470.81) (8470.81) (6923.25) Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted 0.15 (4.09)

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com) For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (Hardev Chand Verma) Place:New Delhi Whole Time Director (DIN 00007681) Date: 14/08/2022

Regd. Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.)

Email: rai_nisl2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225-26 Fax: 07752-285213 Extract from the Un-Audited Financial Results

> (Rs. in lacs) for the Quarter Ended 30.06.2022 Year to Quarter Corresponding Particulars Ending date 3 months

			figures	ended in the previous year
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
1,	Total income from operations	18687.90	61382.66	12712.90
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	308.88	(1073.93)	1879.85
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	308.88	(1073.93)	1879.85
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	207.82	(1478.19)	1773.92
5.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Ot- her Comprehensive Income (after tax)]	207.82	(1473.05)	1773.92
6.	Equity Share Capital	3613.95	3613.95	3613.95
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(8470.81)	(8470.81)	(6923.25)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com) For and on behalf of Board of Directors

Place:New Delhi Date: 14/08/2022

New Delhi

NOVA IRON & STEEL LTD

For Nova Iron & Steel Ltd.

(for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted 0.58 (4.09)

> For Nova Iron & Steel Ltd. Sd/- (Hardev Chand Verma) Whole Time Director (DIN 00007681)

financialem epape.in

subject to limited review by the auditor.

The figures for the previous period have been restated / regrouped / reclassified, wherever necessary, in order to make them comparable.

December 31,2021 were not subjected to limited reviery.

(Formerly known as Debock Sales And Marketing Limited) Place: Jaipur